



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]
No. 91]

नई दिल्ली, बुध्दस्वतिवार, अप्रैल 3, 2003/चैत्र 13, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2003/CHAITRA 13, 1925

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2003

सं. 49-प्रेच/2003.— राष्ट्रपति निम्नलिखित पुरस्कार सहर्ष प्रदान करते हैं :-

पद्म विभूषण

- श्री बल राम नंदा, (साहित्य एवं शिक्षा), दिल्ली ।
वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा, (चिकित्सा - आयुर्वेद), दिल्ली ।
श्री काजी लेण्डूप दोर्जी खाडसार्पा, (सार्वजनिक कार्य), कालिम्पोंग, सिक्किम ।
श्रीमती सोनल मानसिंह, (कला - शास्त्रीय नृत्य), दिल्ली ।

पद्म भूषण

- श्री अम्मन्नूर माधव चाक्यार, (कला - प्रदर्शन कला), केरल ।
डा० आरकाठ रामचन्द्रन्, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), बंगलौर, कर्नाटक ।
प्रो० बगीचा सिंह मिन्हास, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), दिल्ली ।
श्री बालसुब्रमण्य राजम अय्यर, (कला - कर्नाटिक संगीत), चेन्नई ।
श्री कोलूथूर गोपालन, (चिकित्सा - पोषाहार), दिल्ली ।
श्री हरी शंकर सिंहानिया, (व्यापार एवं आर्थिक कार्य), दिल्ली ।
श्री हरबर्ट फिसर, (सार्वजनिक कार्य), बर्लिन, जर्मनी ।

- श्री गेर्बेर्त अलेक्सान्द्रोविच येफ्रेमोव, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), मास्को, रूसी संघ।
 श्री जगजीत सिंह, (कला - संगीत), मुम्बई, महाराष्ट्र।
 श्री जयश्रीद नवरोजी गोदरेज, (व्यापार एवं आर्थिक कार्यकलाप), मुंबई, महाराष्ट्र।
 डा० वरतोला ज हस्तीमल संचेती, (चिकित्सा - अस्थिरोग सर्जन), पुणे, महाराष्ट्र।
 श्री मदुरै नारायणन् कृष्णन्, (कला - कर्नाटक संगीत), चेन्नई, तमिलनाडु।
 श्री नारायणन श्रीनिवासन, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), चेन्नई, तमिलनाडु।
 श्री नशीरुद्दीन शाह, (कला - सिनेमा), मुम्बई, महाराष्ट्र।
 श्री ओट्टुपुलाकल वेलुक्कुट्टी विजयन, (साहित्य एवं शिक्षा), दिल्ली।
 डा० (कुमारी) पद्मा सुब्रह्मण्यम्, (कला - शास्त्रीय नृत्य), चेन्नई, तमिलनाडु।
 श्री पराशरन् केशव अय्यंगार, (सार्वजनिक कार्य - विधि), दिल्ली।
 श्री प्रभु दयाल चावला, (पत्रकारिता), दिल्ली।
 श्री पुलियूर सुब्रह्मण्यम नारायणस्वामी, (कला - शास्त्रीय गायन संगीत), चेन्नई, तमिलनाडु।
 डा० पुरुषोत्तम लाल, (चिकित्सा), नौएडा, उत्तर प्रदेश।
 प्रो० राजिन्दर कुमार, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), बंगलौर, कर्नाटक।
 प्रो० राम बदन सिंह, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), दिल्ली।
 डा० रमेश कुमार, (चिकित्सा), दिल्ली।
 प्रो० श्रीकृष्ण जोशी, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), गुड़गांव, हरियाणा।
 डा० सीताकांत महापात्र, (साहित्य एवं शिक्षा), भुवनेश्वर, उड़ीसा।
 श्री सुभाष मुखोपाध्याय, (साहित्य एवं शिक्षा), कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
 श्रीमती स्वप्नसुन्दरी, (कला - भारतीय शास्त्रीय नृत्य), दिल्ली।
 श्रीमती तीजन बाई, (कला - लोक संगीत), दुर्ग, छत्तीसगढ़।
 श्री तलियाडिपरम्बिल विट्टुप रामचंद्र शेणय, (पत्रकारिता), दिल्ली।
 श्री तिरुवालंगाडु वेम्बु ऐयूर शंकरनारायणन्, (कला-कर्नाटक गायन संगीत), चेन्नई, तमिलनाडु।
 श्री ट्रिच्चूर वैद्यनाथ रामचन्द्रन, (कला - कर्नाटक गायन संगीत), चेन्नई, तमिलनाडु।
 श्री उमयालपुरम् काशीविश्वनाथ शिवरामन्, (कला - वाद्य संगीत), चेन्नई, तमिलनाडु।

पद्म श्री

- श्री आमिर खान, (कला - सिनेमा), मुम्बई, महाराष्ट्र।
 डा० अशोक सेठ, (चिकित्सा), दिल्ली।
 प्रो० अशोक कुमार बरूआ, (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), जादवपुर, पश्चिम बंगाल।
 श्री बाबुराव गोविंदराव शिर्के, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), पुणे, महाराष्ट्र।

- डा० चोडचरु लालमिडलियाना, (समाज कार्य), आईजौल, मिजोरम ।
 श्री डैनी डेनजोंगा, (कला - सिनेमा), मुम्बई, महाराष्ट्र ।
 डा० फ्रानसिस दोरे, (सार्वजनिक कार्य), पेरिस, फ्रांस ।
 प्रो० गोपाल चन्द्र मित्र, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), भुवनेश्वर, उड़ीसा ।
 श्री गोपाल पुरुषोत्तम फडके, (खेलकूद), पुणे, महाराष्ट्र ।
 डा० ज्ञान चन्द्र मिश्र, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), पुणे, महाराष्ट्र ।
 प्रो० जगदेव सिंह गुलेरिया, (चिकित्सा), दिल्ली ।
 डा० जगदीश चतुर्वेदी, (साहित्य), दिल्ली ।
 श्री जाहनू बरूआ, (साहित्य एवं शिक्षा), गुवाहाटी, असम ।
 डा० जय भगवान चौधरी, (विज्ञान एवं इंजीनियरी - जैव-प्रौद्योगिकी), हिसार, हरियाणा ।
 डा० जय पाल मित्तल, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), मुम्बई, महाराष्ट्र ।
 सुश्री ज्योतिर्मयी सिकदर, (खेलकूद - एथलेटिक्स), कोलकाता, पश्चिम बंगाल ।
 श्री कन्हैया लाल पोखरियाल (खेलकूद - पर्वतारोहण), पौड़ी गढ़वाल, उत्तरांचल ।
 श्री किशोरभाई रतिलाल झावेरी, (समाज कार्य), दिल्ली ।
 श्रीमती क्षेत्रिमयुम उडवी थौरानीशावी देवी, (कला - भारतीय शास्त्रीय नृत्य), इम्फाल, मणिपुर ।
 श्री महेन्द्र सिंह सोढा, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
 सुश्री मालविका सरूक्के, (कला - शास्त्रीय नृत्य), चेन्नई, तमिलनाडु ।
 श्री मंथीरम नटराजन, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), दिल्ली ।
 श्री मंजूर एहतेशाम, (साहित्य एवं शिक्षा), भोपाल, मध्य प्रदेश ।
 डा० मोतीलाल जोतवाणी, (साहित्य एवं शिक्षा), दिल्ली ।
 श्री नागराजन वेदाचलम, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), तिरुवनन्तपुरम, केरल ।
 डा० नल्लि कुप्पुस्वामि चेट्टियार, (व्यापार एवं उद्योग), चेन्नई, तमिलनाडु ।
 श्री नन्द नूरी मुकेश कुमार, (खेलकूद - हार्की), सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश ।
 प्रो० नारायण पणिकर कोच्चुपिल्लै, (चिकित्सा), दिल्ली ।
 प्रो० नीलकण्ठ रामकृष्ण माधव मेनोन्, (सार्वजनिक कार्य - विधि), कोलकाता, पश्चिम बंगाल ।
 श्री नेमिचन्द्र जैन, (कला - रंगमंच), दिल्ली ।
 श्री नोकुन्दलम्बा, (साहित्य एवं शिक्षा), दीमापुर, नागालैण्ड ।
 श्री ओम प्रकाश जैन, (कला), दिल्ली ।
 श्री प्रतापसिंह गणपतराव जाधव, (पत्रकारिता), कोल्हापुर, महाराष्ट्र ।
 डा० प्रीतम सिंह, (साहित्य एवं शिक्षा), लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
 डा० राजगोपालन कृष्णनवैद्यन, (चिकित्सा), कोल्लम, केरल ।
 श्रीमती राखी गुलजार, (कला - सिनेमा), मुम्बई, महाराष्ट्र ।
 प्रो० राम गोपाल बजाज, (कला), दिल्ली ।

- श्री रामस्वामी वैरमुत्तु, (साहित्य एवं शिक्षा - कव्य), चेन्नई, तमिलनाडु ।
 सुश्री रंजना गौहर, (कला - भारतीय शास्त्रीय नृत्य), दिल्ली ।
 प्रो० (श्रीमती) ऋता गांगुली, (कला - संगीत एवं नृत्य), दिल्ली ।
 श्री सदाशिव वसंतराव गोरक्षकर, (कला - संग्रहालय प्रबंधन), ठाणे, महाराष्ट्र ।
 डा० सर्वज्ञ सिंह कटियार, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
 पंडित सतीश चिंतामण व्यास, (कला - वाद्य संगीत), मुम्बई, महाराष्ट्र ।
 उस्ताद शफ़ात अहमद खान, (कला - वाद्य संगीत), दिल्ली ।
 श्री शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, (साहित्य एवं शिक्षा), पटना, बिहार ।
 श्री शिवराम बाबुराव भोजे, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), कलपक्कम, तमिलनाडु ।
 श्री श्रीनिवास वेंकटराघवन, (खेलकूद - क्रिकेट), चेन्नई, तमिलनाडु ।
 श्रीमती सुकुमारी सत्याभामा, (कला - सिनेमा), चेन्नई, तमिलनाडु ।
 श्री सुन्दरम् रामकृष्णन, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), तिरुवनन्तपुरम, केरल ।
 श्री तेक्कटटे नारायण शानभाग, (पुस्तक प्रकाशन), मुम्बई, महाराष्ट्र ।
 श्री धोगुलुवा मीनाक्षी अय्यङ्गार सौन्दरराजन्, (कला - संगीत), चेन्नई, तमिलनाडु ।
 श्री वादिराज राघवेन्द्र कट्टी, (विज्ञान एवं इंजीनियरी), बंगलौर, कर्नाटक ।
 श्रीमती वर्ना एलिजाबेथ वात्रे ईटी, (समाज कार्य), वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय ।
 डा० विजय प्रकाश सिंह, (चिकित्सा - जठरान्त्रशोध), पटना, बिहार ।
 डा० यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, (साहित्य एवं शिक्षा), विशाखापतनम, आंध्र प्रदेश ।

पी. एम. नायर, राष्ट्रपति के सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2003

No. 49-Pers/2003.—The President is pleased to make the following awards:-

PADMA VIBHUSHAN

- Shri Bal Ram Nanda, (Literature and Education), Delhi.
 Vaidya Bhrihaspati Dev Triguna, (Medicine-Ayurveda), Delhi.
 Shri Kazi Lhendup Dorji Kangsarpa, (Public Affairs), Kalimpong, West Bengal.
 Smt. Sonal Mansingh, (Art-Classical Dance), Delhi.

PADMA BHUSHAN

- Shri Ammannur Madhava Chakyar, (Art- Performing Arts), Trichur, Kerala.
 Dr. Arcot Ramachandran, (Science & Engineering), Bangalore, Karnataka.
 Prof. Bagicha Singh Minhas, (Science & Engineering), Delhi.
 Shri Balasubramania Rajam Iyer, (Art-Carnatic Music), Chennai, Tamil Nadu.
 Shri Coluthur Gopalan, (Medicine-Nutrition), Delhi.
 Shri Hari Shankar Singhania, (Trade and Economic Activity), Delhi.
 Shri Herbert Paul Fischer, (Public Affairs), Berlin, Germany.
 Shri Herbert Alexandrovich Yefremov, (Science & Engineering), Moscow, Russian Federation.
 Shri Jagjit Singh, (Art- Music), Mumbai, Maharashtra.
 Shri Jamshyd Naoroji Godrej, (Trade & Economic Activity), Mumbai, Maharashtra.
 Dr. Kantilal Hastimal Sancheti, (Medicine - Orthopaedic Surgeon), Pune, Maharashtra.
 Shri Madurai Narayanan Krishnan, (Art-Carnatic Music), Chennai, Tamil Nadu.
 Shri Narayanan Srinivasan, (Science & Engineering), Chennai, Tamil Nadu.
 Shri Naseeruddin Shah, (Art- Cinema), Mumbai, Maharashtra.
 Shri Ottupulakkal Velukkuty Vijayan, (Literature and Education), Kottayam, Kerala.
 Dr. (Kumari) Padma Subrahmanyam, (Art-Classical Dance), Chennai, Tamil Nadu.
 Shri Parasaran Kesava Iyengar, (Public Affairs-Law), Delhi.
 Shri Prabhu Dayal Chawla, (Journalism), Delhi.
 Shri Puliur Subramaniam Narayanaswamy, (Art-Classical Vocal Music), Chennai, Tamil Nadu.
 Dr. Purshotam Lal, (Medicine), Noida, Uttar Pradesh.
 Prof. Rajinder Kumar, (Science & Engineering), Bangalore, Karnataka.
 Prof. Ram Badan Singh, (Science & Engineering), Delhi.
 Dr. Ramesh Kumar, (Medicine), Delhi.
 Prof. Shri Krishna Joshi, (Science & Engineering), Gurgaon, Haryana.
 Dr. Sitakant Mahapatra, (Literature and Education), Bhubaneswar, Orissa.
 Shri Subhas Mukhopadhyay, (Literature and Education), Kolkata, West Bengal.
 Smt. Swapnasundari, (Art- Indian Classical Dance), Delhi.
 Smt. Teejan Bai, (Art- Folk Music), Durg, Chattisgarh.
 Shri Thaliyadiparambil Vittappa Ramachandra Shenoy, (Journalism), Delhi.
 Shri Tiruvalangadu Vembu Iyer Sankaranarayanan, (Art-Carnatic Vocal Music), Chennai, Tamil Nadu.
 Shri Trichur Vaidyanatha Ramachandran, (Art-Carnatic Vocal Music), Chennai, Tamil Nadu.
 Shri Umayalpuram Kasiviswanatha Sivaraman, (Art-Instrumental Music), Chennai, Tamil Nadu.

PADMA SHRI

- Shri Aamir Khan, (Art-Cinema), Mumbai, Maharashtra.
 Dr. Ashok Seth, (Medicine), Delhi.
 Prof. Asok Kumar Barua, (Science & Technology), Jadavpur, West Bengal.
 Shri Baburao Govindrao Shirke, (Science & Engineering), Pune, Maharashtra.
 Dr. Chawngthu Lalmingliana, (Social Work), Aizawl, Mizoram.
 Shri Danny Denzongpa, (Art-Cinema), Mumbai, Maharashtra.

- Dr. Francis Dore, (Public Affairs), Paris, France.
- Prof. Gopal Chandra Mitra, (Science & Engineering), Bhubaneswar, Orissa.
- Shri Gopal Purushottam Phadke, (Sports), Pune, Maharashtra.
- Dr. Gyan Chandra Mishra, (Science & Engineering), Pune, Maharashtra.
- Prof Jagdev Singh Guleria, (Medicine), Delhi.
- Dr. Jagdish Chaturvedi, (Literature), Delhi.
- Shri Jahnu Barua, (Literature and Education), Guwahati, Assam.
- Dr. Jai Bhagwan Chowdhury, (Science & Engineering- Bio-Technology), Hissar, Haryana.
- Dr. Jai Pal Mittal, (Science & Engineering), Mumbai, Maharashtra.
- Ms. Jyotirmoyee Sikdar, (Sports-Athletics), Kolkata, West Bengal.
- Shri Kanhaya Lal Pokhriyal, (Sports-Mountaineering), Dehra Dun, Uttaranchal.
- Shri Kishorebhai Ratilal Zaveri, (Social Work), Delhi.
- Smt. Kshetrimayum Ongbi Thouranisabi Devi, (Art-Indian Classical Dance), Imphal, Manipur.
- Shri Mahendra Singh Sodha, (Science & Engineering), Lucknow, Uttar Pradesh.
- Ms. Malavika Sarukkai, (Art-Classical Dance), Chennai, Tamil Nadu.
- Shri Manthiram Natarajan, (Science & Engineering), Delhi.
- Shri Manzoor Ahtesham, (Literature and Education), Bhopal, Madhya Pradesh.
- Dr. Motilal Jotwani, (Literature and Education), Delhi.
- Shri Nagarajan Vedachalam, (Science & Engineering), Thiruvananthapuram, Kerala.
- Dr. Nalli Kuppaswami Chettiar, (Trade & Industry), Chennai, Tamil Nadu.
- Shri Nandanoori Mukesh Kumar, (Sports-Hockey), Secunderabad, Andhra Pradesh.
- Prof. Narayana Panicker Kochupillai, (Medicine), Delhi.
- Prof. Neelakanta Ramakrishna Madhava Menon, (Public Affairs-Law), Kolkata, West Bengal.
- Shri Nemichandra Jain, (Art-Theatre), Delhi.
- Shri Nokdenlemba, (Literature and Education), Dimapur, Nagaland.
- Shri Om Prakash Jain, (Art), Delhi.
- Shri Pratapsinh Ganapatrao Jadhav, (Journalism), Kolhapur, Maharashtra.
- Dr. Pritam Singh, (Literature and Education), Lucknow, Uttar Pradesh.
- Dr. Rajagopalan Krishnan Vaidian, (Medicine), Kollam, Kerala.
- Smt. Rakhee Gulzar, (Art-Cinema), Mumbai, Maharashtra.
- Prof. Ram Gopal Bajaj, (Art), Hyderabad, Andhra Pradesh.
- Shri Ramasamy Vairamuthu, (Literature & Education - Poetry), Chennai, Tamil Nadu.
- Ms. Ranjana Gauhar, (Art-Indian Classical Dance), Delhi.
- Prof.(Smt.) Rita Ganguly, (Art-Music & Dance), Delhi.
- Shri Sadashiv Vasant Rao Gorakshkar, (Art- Museology), Thane, Maharashtra.
- Dr. Sarvagya Singh Katiyar, (Science & Engineering), Kanpur, Uttar Pradesh.
- Pandit Satish Chintaman Vyas, (Art - Instrumental Music), Mumbai, Maharashtra.
- Ustad Shafaat Ahmed Khan, (Art-Instrumental Music), Delhi.
- Shri Shailendra Nath Shrivastava, (Literature and Education), Patna, Bihar.
- Shri Shivram Baburao Bhoje, (Science & Engineering), Kalpakkam, Tamil Nadu.
- Shri Srinivas Venkataraghavan, (Sports-Cricket), Chennai, Tamil Nadu.
- Smt. Sukumari Sathyabhama, (Art- Cinema), Chennai, Tamil Nadu.
- Shri Sundaram Ramakrishnan, (Science & Engineering), Thiruvananthapuram, Kerala.

Shri Tekkatte Narayan Shanbhag, (Book Publishing), Mumbai, Maharashtra.
Shri Thoguluva Meenakshi Iyengar Sounderarajan, (Art-Music), Chennai, Tamil Nadu.
Shri Vadiraj Raghavendra Katti, (Science & Engineering), Bangalore, Karnataka.
Smt. Verna Elizabeth Watre Ingty, (Social Work), West Garo Hills, Meghalaya.
Dr. Vijay Prakash Singh, (Medicine- Gastroenterology), Patna, Bihar.
Dr. Yarlagadda Lakshmi Prasad, (Literature and Education), Visakhapatnam, Andhra Pradesh.

P. M. NAIR, Secy. to the President